



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 694]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2016/फाल्गुन 28, 1937

No. 694]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2016/PHALGUNA 28, 1937

शहरी विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2016

का.आ. 1156(अ).—शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीनस्थ कार्यालय में प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स, दिल्ली को नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में घोषित किया गया है और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के निबंधनों के अनुसार प्रकाशन विभाग में समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी की शक्तियां भी प्रदत्त की गई हैं।

प्रकाशन विभाग, दिल्ली में प्रकाशन नियंत्रक का पद तत्कालीन पदधारी की अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति के परिणामस्वरूप 01 जून, 2015 से रिक्त हो चुका है और उसके कुछ और समय तक इस प्रकार रिक्त बने रहने की संभावना है।

और श्री सुबीर कुमार मण्डल, नियंत्रक स्टेशनरी, भारत सरकार, स्टेशनरी कार्यालय कोलकाता, शहरी विकास मंत्रालय, को प्रकाशन नियंत्रक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है ;

प्रकाशन नियंत्रक द्वारा प्रयोग किए गए नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए उपबंध करने की व्यवस्था करने की तत्काल आवश्यकता है।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उपनियम (2) और नियम 12 के उपनियम (2) के अनुसरण में श्री सुबीर कुमार मण्डल, नियंत्रक स्टेशनरी, भारत सरकार, स्टेशनरी कार्यालय कोलकाता, शहरी विकास मंत्रालय, को प्रकाशन विभाग में प्रकाशन नियंत्रक के पद पर नियमित रूप से भरे जाने तक या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रकाशन विभाग में समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों के संबंध में प्रकाशन नियंत्रक, में निहित नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं।

[फा. सं. स्था./237/2002-08/15]

राजेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**ORDER**

New Delhi, the 3rd March, 2016

S.O. 1156(E).— Whereas, the Controller of Publication, Department of Publication, Civil Lines, Delhi, a Subordinate Office of the Ministry of Urban Development, Government of India, New Delhi has been declared as the appointing authority and has also been conferred with the powers of disciplinary authority and appellate authority in respect of Group 'B' posts and Group 'C' posts in the Department of Publication, in terms of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

And whereas, the post of Controller of Publication in Department of Publication, Delhi has fallen vacant with effect from the 1st day of June, 2015 consequent upon the retirement on superannuation of the then incumbent and is likely to continue to be so vacant for some more time.

And whereas, Shri Subir Kumar Mandal, Controller of Stationery, Government of India Stationery Office, Kolkata, Ministry of Urban Development has been given additional charge of the Controller of Publications;

And whereas, there is an urgent need to make an arrangement to provide for the performance of the functions of the appointing authority, disciplinary authority and appellate authority hitherto exercised by the Controller of Publication.

Now, therefore, in pursuance of sub-rule (2) of rule 9 and sub-rule (2) of rule 12 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President is pleased to authorise Shri Subir Kumar Mandal, Controller of Stationery, Government of India Stationery Office, Kolkata, Ministry of Urban Development to exercise the powers of the appointing authority, disciplinary authority and appellate authority vested in the Controller of Publication in respect of Group 'B' and Group 'C' posts in the Department of Publication, till a regular appointment is made to the post of Controller of Publication, in the Department of Publication or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. Estt./237/2002-08/15]
RAJESH KUMAR, Under Secy.